

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2025 — माघ 23, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2025

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-3/2024/1-7.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-06-2024 द्वारा दिनांक 15-05-2024 व 16-05-2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतरखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना की जांच हेतु जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-02-2025 तक वृद्धि किया गया है, जो समाप्त हो रहा है। चूंकि, आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 13-02-2025 से दिनांक 12-06-2025 तक 04 माह की और वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मुकेश कुमार बंसल**, सचिव.